

- (घ) पर्यावरण कुजनेट वक्र क्या है? यह आर्थिक विकास और पर्यावरण के बारे में क्या सुझाव देता है? (9)

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 3659

J

Unique Paper Code : 2413080028

Name of the Paper : Environmental Accounting
Discipline Specific Elective
Course- 6.8 (DSE-6.8)

Name of the Course : B. Com. (H.) UGCF

Semester : VI

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt all questions by selecting two parts of each question.
3. Part of the questions are to be attempted together.
4. All questions carry equal marks (18 marks each).
5. Answers may be written either in **English or in Hindi**, but the same medium should be used throughout

the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. प्रत्येक प्रश्न के दो भागों का चयन करके सभी प्रश्नों का प्रयास करें।
3. प्रश्नों के सभी भागों का उत्तर एक साथ दीजिए।
4. सभी प्रश्नों के अंक समान (18 अंक) हैं।
5. इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।
1. (a) Briefly explain why traditional accounting methods are not enough to show a company's environmental impact. (9)
- (b) What does "shift in paradigm" mean for accounting when discussing environmental issues? (9)
- (c) Why is it important to have environmental accounting in today's world? (9)

4. (क) ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग का क्या अर्थ है, इसकी व्याख्या कीजिए। यह किन तीन क्षेत्रों को कवर करता है? (9)
- (ख) सीएसआर रिपोर्टिंग का उद्देश्य क्या है? यह ग्रीन अकाउंटिंग से कैसे संबंधित है? (9)
- (ग) व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग पर सेबी के दिशानिर्देश क्या हैं? वे महत्वपूर्ण क्यों हैं? (9)
- (घ) जीआरआई या एसएसबी पर्यावरण रिपोर्टिंग मानकों के पीछे मुख्य विचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (9)
5. (क) राष्ट्रीय पर्यावरण लेखांकन क्या है? इसका उद्देश्य क्या मापना है? (9)
- (ख) एकीकृत पर्यावरण और आर्थिक खातों की प्रणाली क्या है? (9)
- (ग) ग्रीन जीडीपी की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यह सामान्य जीडीपी से किस प्रकार भिन्न है? (9)

- (ख) पर्यावरणीय लेखांकन में बाह्यताएँ क्या हैं? एक सरल उदाहरण दीजिए। (9)
- (ग) किसी उत्पाद के लिए "वास्तविक लागत" और "छिपी हुई लागत" के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। (9)
- (घ) जीवन चक्र मूल्यांकन (LCA) क्या है? यह किसी कंपनी को अपनी पर्यावरणीय लागतों का प्रबंधन करने में कैसे मदद कर सकता है? (9)
3. (क) कॉर्पोरेट पर्यावरणीय लेखांकन क्या है? उपयोग की जाने वाली दो सामान्य विधियों का उल्लेख कीजिए। (9)
- (ख) पर्यावरण प्रबंधन लेखांकन क्या है, और यह कंपनियों के लिए क्यों उपयोगी है? (9)
- (ग) कंपनियाँ अपने कार्बन पदचिह्न की गणना कैसे करती हैं? इसे कम करने के दो सरल तरीके बताइये। (9)
- (घ) पर्यावरण प्रदर्शन संकेतक क्या हैं? दो उदाहरण दीजिए। (9)

- (d) How does environmental accounting help achieve sustainable development? (9)
2. (a) Name and briefly explain any three different types of environmental costs a company might face. (9)
- (b) What are externalities in environmental accounting? Give one simple example. (9)
- (c) Explain the difference between a "True Cost" and a "Hidden Cost" for a product. (9)
- (d) What is Life Cycle Assessment (LCA)? How can it help a company manage its environmental costs? (9)
3. (a) What is Corporate Environmental Accounting? Mention two common methods used. (9)
- (b) What is Environmental Management Accounting, and why is it useful for companies? (9)

- (c) How do companies calculate their carbon footprint?
Give two simple ways they can reduce it. (9)
- (d) What are Environmental Performance Indicators?
Give two examples. (9)
4. (a) Explain what Triple Bottom Line reporting means.
What three areas does it cover? (9)
- (b) What is the purpose of CSR Reporting? How is it
related to Green Accounting? (9)
- (c) What are the SEBI Guidelines on Business
Responsibility & Sustainability Reporting about?
Why are they important? (9)
5. (a) What is National Environmental Accounting? What
does it aim to measure? (9)
- (b) What is the System of Integrated Environmental
and Economic Accounts ? (9)

- (c) Explain the concept of Green GDP. How is it
different from normal GDP? (9)
- (d) What is the Environmental Kuznets Curve ? What
does it suggest about economic growth and the
environment? (9)
1. (क) संक्षेप में बताइये कि पारंपरिक लेखांकन विधियाँ किसी कंपनी
के पर्यावरणीय प्रभाव को दिखाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं हैं।
(9)
- (ख) पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करते समय लेखांकन के लिए 'प्रतिमान
में बदलाव' का क्या अर्थ है? (9)
- (ग) आज की दुनिया में पर्यावरणीय लेखांकन क्यों महत्वपूर्ण है?
(9)
- (घ) पर्यावरणीय लेखांकन सतत विकास को प्राप्त करने में कैसे मदद
करता है? (9)
2. (क) किसी कंपनी को होने वाली पर्यावरणीय लागतों के किसी भी तीन
अलग-अलग प्रकारों का नाम बताइये और संक्षेप में समझाइये।
(9)